



**HT MEDIA LIMITED**  
Regd. Office : Hindustan Times House  
18-20, Kasturba Gandhi Marg  
New Delhi - 110001  
Tel.: 66561234 Fax : 66561270  
www.hindustantimes.com  
E-mail : corporatedept@hindustantimes.com  
CIN : L22121DL2002PLC117874

**Ref:** HTML/CS/02/2020

22<sup>nd</sup> August, 2020

**BSE Limited**  
Phiroze Jeejeebhoy Towers, Dalal Street  
**MUMBAI – 400 001**

**The National Stock Exchange of India Limited**  
Exchange Plaza, C/1, G Block  
Bandra-Kurla Complex  
Bandra (E)  
**MUMBAI – 400 051**

**Scrip Code: 532662**

**Trading Symbol: HTMEDIA**

Dear Sirs,

**Sub: Newspaper advertisement- Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015**

**Re: 18<sup>th</sup> Annual General Meeting (AGM) of the Company via video conferencing/other audio visual means**

Please find enclosed herewith relevant page of “**Hindustan**” (Hindi – Delhi NCR, Patna, Lucknow, Ranchi and Dehradun Editions) and “**Mint**” (English – All Editions) newspapers, published on 22<sup>nd</sup> August, 2020 intimating that 18<sup>th</sup> AGM of the Company will be held on Monday, 21<sup>st</sup> September, 2020 via Video Conferencing/other audio visual means, along with other related information.

This is for your information and records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **HT Media Limited**

  
(Dinesh Mittal)  
Group General Counsel  
& Company Secretary



**Encl.:** As above



# Future to pay missed interest by Monday

The company was allowed a grace period of 30 days to make the payment

Swaraj Singh Dhanjal & Suneera Tandon  
MUMBAI/NEW DELHI

**K**ishore Biyani's flagship company Future Retail Ltd, which runs the popular supermarket chain BigBazaar, is likely to pay interest on its dollar bonds by Monday, after missing the payment deadline nearly a month ago, two people aware of the development said requesting anonymity.



Kishore Biyani's flagship company Future Retail had missed the deadline to pay the interest on its dollar bonds nearly a month ago.

On 22 July, Future Retail informed stock exchanges that it had missed paying \$14 million (approximately ₹105 crore) interest due on bonds worth \$500 million due in 2025, which it had raised in January. To be sure, the miss did not constitute a default, as the terms of the bonds allow for a 30-day grace period; if the company still does not make the payment by then, it will be classified as default.

but the banks had declined to commit to the financing.

Future Retail blamed the covid-19 pandemic and the nationwide lockdown that followed for its inability to make timely

of the payment of interest due on the USD Notes (listed on Singapore Stock Exchange) on 22nd July, 2020," the company said in its exchange filing last month.

The liquidity troubles of the company come at a time when Biyani is in advanced discussions with Mukesh Ambani, to sell a part of his retail empire, including the flagship Future Retail.

On 11 June, *Mint* reported that Ambani is among the front-runners expected to snap up controlling stakes in Future Retail and Future Lifestyle Fashion Ltd, the apparel retail business of the group. Other group businesses such as Future Supply Chain Solutions Ltd and its stake in an insurance joint venture are also up for sale.

## LIQUIDITY TROUBLES

**FUTURE** Retail had missed paying nearly \$14 mn interest due on bonds worth \$500 mn due in 2025

**IT** blamed the covid-19 pandemic and the lockdown for its inability to make timely payments

**WHILE** the miss did not constitute a default, if it does not pay by 24 Aug, it will be classified as one

According to the first person, it can technically make the payment till Monday, as the deadline is 22 August, which is a holiday. The person added that the company should be able to make the payments as the funds are getting arranged.

An email sent to Future Retail remained unanswered.

On Thursday, *Bloomberg* reported that Future Retail is in discussions with lenders led by State Bank of India to raise cash to help pay the interest on the dollar security,

interest payments.

"We would like inform that due to the nationwide lockdown imposed to restrict the spread of covid-19 pandemic, and consequent restricted business operations of the company the liquidity position has been affected causing us to miss the service

*swaraj.d@livemint.com*



Scientists recommend at least 40% humidity in public buildings to curb covid-19 spread  
bit.ly/34IRN2D

# Max Healthcare shares hit upper circuit on debut as firm eyes more acquisitions

Leroy Leo  
leroy.d@livemint.com  
NEW DELHI

**M**ax Healthcare Institute Ltd will look to acquire stressed hospital assets, its chairman and managing director said on Friday, as shares of India's second-largest hospital chain surged on the first day of listing.

"I think M&A (mergers and acquisitions) and turnarounds have been intrinsic to our growth, and we intend to stick to our knitting. Due to the current financial distress, a lot of hospital chains and balance sheets have been impacted in India. I believe this will throw up a lot of opportunities for us to consolidate our business and grow it further," Abhay Soi said at a virtual press conference on Friday.

Max Healthcare will look to buy "value-accretive" single hospitals of reasonable size and scale in the Delhi-NCR region and Mumbai, Soi said.

He said the company will also consider operations and management contracts with real estate developers and investment trusts. However, the plan is in the early stages and will be rolled out once the pandemic ends, Soi added.

Shares of Max Healthcare hit the 5% upper limit at ₹12.35 apiece on the BSE after opening at ₹107.



Max Healthcare will look to acquire stressed hospital assets, says chairman and MD Abhay Soi.

In 2018, Soi who founded Radiant Life Care Pvt. Ltd announced a complex deal with the Anajit Singh-led group, wherein Max India would have off its hospital assets under Max Healthcare, and subsequently Radiant would be merged into the Max group. Subsequently, Radiant, with support from private equity firm KKR, took a 49.7% stake in Max Health Institute Ltd for ₹2,136 crore in June 2019, and Soi became the chairman and managing director.

Under the deal, the merged entity gets the Max brand, but has to change

the logo. The merger of Radiant with Max hospitals was completed in June, followed by the listing of the combined entity. Max Healthcare was the third and largest acquisition by Soi.

Soi founded Radiant Life Care in 2000 after over a decade turning around distressed assets in sectors such as financial services and speciality chemicals. The company gained prominence when it acquired Dr. B.L. Kapur Memorial Hospital in Delhi a decade later. In 2014, it took management control of Mumbai's prominent Dr. Balabhai Nanavati Hospital.

To be sure, Soi has never built a hospital and has instead only acquired prominent assets that were under financial duress.

"For me, I will not be looking at greenfields on my own. It's an asset light model... Also, we will focus on metros due to the value proposition from both a doctor's and a patient's standpoint is more similar," he said in an interview on Wednesday.

While Max Healthcare will not look at greenfield operations, the company does have plans to expand its flagship super speciality hospital at Saket in Delhi, and the Nanavati hospital, Soi said.

The company will build another 350 beds at the 521-bed Max Super Speciality Hospital and 600 beds at the 348-bed Nanavati hospital.

# RBI to bring debt recast plan by 6 Sep: Das

FROM PAGE 16

loans are expected to surge to a 20-year high after RBI's loan moratorium ends on 31 August.

RBI had set up a five-member panel under the chairmanship of former ICICI Bank chief executive K.V. Kamath on 7 August to recommend eligibility parameters for restructuring stressed loans. In his interview, Das said the committee will only specify financial parameters such as debt-equity and debt coverage ratios.

Under the guidelines, the central bank had said that the lending institutions may allow extension of residual tenure of loans, with or without payment

moratorium, by not more than two years.

*Mint* had reported on 21 August that lenders were preparing guidelines ahead of the moratorium

**The Kamath committee's suggestions will be only for biz loans; retail loans will be resolved right away, he said**

deadline to determine eligibility and ensure borrowers do not misuse the one-time loan restructuring package for stressed individuals and companies once repayment moratorium ends in a little over a week. Many lenders have set up internal groups to vet debt recast applications, and plan to divide them

into two buckets—customized and standardized—for quick resolution of proposals.

Das said the committee's recommendations will be only

for business loans, while retail loans will be resolved right away. Those assets which were under stress even before the covid outbreak must be resolved, according to guidelines issued in the 7

June circular. "We have considered both business and retail borrowers. Moratorium was a temporary solution for the lockdown period. Resolution is

a permanent solution," he added.

Commenting on the economic environment, Das said RBI had projected a forward guidance on GDP growth to be in the negative territory in 2020-21.

"At the monetary policy committee meeting, all members were of the view that RBI is constrained in cutting lending rates due to persisting inflation. It would be prudent at this stage to wait for a firmer assessment of the outlook for growth and inflation as the staggered opening of the economy progresses, supply bottlenecks ease and price reporting pattern stabilizes," Das had said.

# FB is open, non-partisan: India VP Ajit Mohan

Saumya Tewari  
saumya.t@livemint.com  
NEW DELHI

**F**acebook on Friday said it is an open, transparent and non-partisan platform which denounces hate and bigotry in any form.

The comments comes amid a political storm over a report

published in the *Wall Street Journal* last week, alleging the social media giant ignored extremist posts by ruling Bharatiya Janata Party leaders in order to protect its business interests in India.

"We have been accused of bias in the way we enforce our policies. We take allegations of bias incredibly seriously, and

want to make it clear that we denounce hate and bigotry in any form," said Ajit Mohan, vice president and managing director, Facebook India in a blog post.

Facebook claimed it has an impartial approach to dealing with content and that this is governed strongly by its community standards. These poli-

cies are enforced globally without regard to anyone's political position, party affiliation or religious and cultural belief, it added.

"We have removed and will continue to remove content posted by public figures in India when it violates our Community Standards," Mohan added.

**BSES** BSES Rajdhani Power Limited, New Delhi

**TENDER NOTICE** Date: 22.08.2020

Sealed tenders under two Bid System (Unpriced & Priced) is invited for following job from all bidders.

NIT No.	Brief Item Description	Cost of EMD (₹)	Due Date & Time of Submission	Date & Time of Opening
CMC/BR/20-21/SV/AR/AN/866	"HIRING OF BHARAT BILL PAYMENT OPERATING UNITS (BPOUS) FOR COLLECTION OF ELECTRICITY BILL PAYMENTS FOR BSES RAJDHANI POWER LIMITED"	5 Lac	11.09.2020 15:45 HRS	11.09.2020 16:00 HRS

Cost of each Tender Document: ₹ 1180/-

For details in respect of Equipment/BOM/Services, Qualifying requirements, Terms & conditions, purchase/submission of tender documents etc. please visit our website [www.bsesdelhi.com](http://www.bsesdelhi.com)

Head (Contracts & Materials)

Regd. Off.: BSES Rajdhani Power Limited, BSES Bhawan, Nehru Place, New Delhi-110019 | Corporate Identification No.: U40109DL2001PLC111527  
Telephone No.: +91 11 3999 7235 | E-mail: [brpl.eauction@reliancecda.com](mailto:brpl.eauction@reliancecda.com) | Website: [www.bsesdelhi.com](http://www.bsesdelhi.com)

**पवन हंस लिमिटेड**  
(भारत सरकार का उपक्रम) **Pawan Hans Limited**  
(A Government of India Enterprise)

**ONLINE INTERVIEW FOR POST OF AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEER (AVIONICS STREAM) - ON CONTRACT BASIS**

Pawan Hans Limited requires Aircraft Maintenance Engineers in Avionics stream on contract basis as under:-

**Eligibility: QRS for the post of Aircraft Maintenance Engineer (AME)**  
Equivalent to E-1 Grade: B2 Category license with one year of working experience as AME from date of endorsement on any helicopter operated by PHL.  
Equivalent to E-2 Grade: B2 Category license with four (4) years of working experience on any helicopter operated by PHL.

**Date: 03.09.2020 Venue: PAWAN HANS LIMITED, CORPORATE OFFICE, C-14, SECTOR-1, NOIDA-201301. Time: 10.30 A.M.**  
For further details, please log on to our Website: [www.pawanhans.co.in](http://www.pawanhans.co.in)  
We fly for you

**Wonder Polymers**

Wishes  
  
**Happy Ganesh Chaturthi**

Website: [www.wppl.in](http://www.wppl.in)

- Toll Coating • Contract Manufacturing • Self Adhesive Tapes & Products • Import • Export • Consultancy
- Slitting & Converting • Product Development • Pilot Coating

for over 33 Years, WPPL has been an expert in adhesive & polymer - based Solutions

Mob.: 9811142693 • Email: [arungupta@wonderpolymers.net](mailto:arungupta@wonderpolymers.net)

**archies**  
The most special way to say you care  
**ARCHIES LIMITED**

Regd. Office: 191F, Sector-4, IMT Manesar, Gurugram, Haryana-122050  
CIN: L36999HR1990PLC041175, Web: [www.archiesonline.com](http://www.archiesonline.com)  
Email: [archies@archiesonline.com](mailto:archies@archiesonline.com), Tel: +91 124 4966666, Fax: +91 124 4966650.

**NOTICE**

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Regulation 29 and 47 (1)(a) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that a meeting of Board of Directors of ARCHIES LIMITED ("Company"), will be held on Friday, 28th August, 2020 at 12:00 Noon, inter alia, to consider and approve the Un-Audited Financial Results of the Company for the quarter and three months ended June 30, 2020.

Information in this regard is also available on the website of the Company i.e. [www.archiesonline.com](http://www.archiesonline.com) and on the website of stock exchanges i.e. [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com)

For Archies Limited  
Hitesh Kumar  
Company Secretary & Compliance Officer

Place: New Delhi  
Date: 21.08.2020

**JAYPEE INFRATECH**  
Sector -128, Noida-201304, Uttar Pradesh (India)

**TENDER NOTICE**  
EXTENSION IN DUE DATE FOR SUBMISSION OF BIDS

**NIT NO.: JIL-YEW/RFP/2020-21/02** Dated 22.08.2020

Vide Tender NIT No.: **JIL-YEW/RFP/2020-21/01** dated **06.08.2020** bids are invited from eligible parties for **Supply and Installation of Guard Rails, Metal Beam Crash Barrier (MBCB) Thrie type on both sides of median including MBCB metallic marker at Yamuna Expressway Road- 0.00 Km to 165.00 Km from Greater Noida to Agra, Uttar Pradesh** in manner as described in the detailed tender notice available on website: [www.jaypeeinfotech.com](http://www.jaypeeinfotech.com) which can be downloaded. Last date of submission of bids is now extended to **25.09.2020**.  
Corrigendum/Addendum, if any, to this publication will appear only on the above website and not be published.

Sd/-  
Anuj Jain  
Interim Resolution Professional for Jaypee Infratech Limited

**कार्यालय अधीक्षण अभियन्ता, राज, राख्य सुविधि विभाग नई दिल्ली, किसान भवन लालकोठी वृत्त-जयपुर एच वृत्त-(पी एच एम) जयपुर**

क्रमांक :- 418-78 दिनांक:- 20.08.2020

विधि आमन्त्रण सूचना संख्या 04/2020-21

निर्माण विभाग समर्थक सड़क संयोजक सार्वजनिक कार्य विभाग, जयपुर (अर्थात्) फैजपुर 01/2020-21, विभिन्न निर्माण कार्य वीथी सड़क वगैरह गणराज्य स्तर पर, अर्थात् फैजपुर 02/2020-21, विभिन्न निर्माण कार्य वीथी सड़क वगैरह, वि.को.01/2020-21, जयपुर, जयपुर, निर्माण कार्य विभाग, जयपुर नगर आर्थिक कमीशन व अन्य निर्माण, किसान एवं कार्य विभाग, लालकोठी वृत्त-जयपुर एच वृत्त, नई दिल्ली, भारत, जयपुर एच वृत्त, नई दिल्ली, भारत, 201304, 20-40, 22-54, 27-20, 80-83 एवं 85-90 सड़क वीथी-सड़क निर्माण कार्य-जयपुर एच वृत्त-जयपुर एच वृत्त, नई दिल्ली, भारत, जयपुर एच वृत्त, नई दिल्ली, भारत, 201304, 20-40, 22-54, 27-20, 80-83 विभाग से आजीवन की जाती है। विधि से संबंधित विवरण निम्न संकेत की वेबसाइट [www.kisanbhawan.gov.in](http://www.kisanbhawan.gov.in) पर उपलब्ध है।  
संकेत संख्या / पी / 20 / 3743 अधीक्षण अभियन्ता, वृत्त-जयपुर

**HT Media Limited**  
CIN: L22121DL2002PLC117874

Registered Office: Hindustan Times House, 18-20, Kasturba Gandhi Marg, New Delhi - 110 001  
Tel: +91-11-66561608, Fax: +91-11-66561445  
Website: [www.htmedia.in](http://www.htmedia.in) | E-mail: [investor@hindustantimes.com](mailto:investor@hindustantimes.com)

**18<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING ("AGM")**

The 18<sup>th</sup> AGM of HT Media Limited will be held on Monday, September 21, 2020 at 11:00 AM (IST) through Video Conferencing/Other Audio-Visual Means ("VC/OAVM") pursuant to the applicable provisions of the Companies Act, 2013 ("Act") read with General Circular Nos. 14/2020, 17/2020 & 20/2020 issued by Ministry of Corporate Affairs on April 8, 2020, April 13, 2020 and May 5, 2020, respectively, and SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to transact the business set out in the Notice convening the AGM.

Electronic copy/version of the Notice convening the AGM, procedure & instructions for e-voting and Annual Report for FY 2019-20 will be sent to those Members whose email ID is registered with the Company/Depository Participants (DP).

Members who have not registered their e-mail address are requested to register the same - in respect of shares held in electronic form with their Depository Participant(s); and - in respect of shares held in physical form by clicking on [https://ris.kfintech.com/email\\_registration/](https://ris.kfintech.com/email_registration/) or by writing to the Company's Registrar and Share Transfer Agent (RTA) viz. KFin Technologies Private Limited, with details of folio number and self-attested copy of PAN card at KFin Technologies Private Limited, Unit: HT Media Limited, Selenium Tower B, Plot No. 31 - 32, Financial District, Nanakramguda Serilingampally Mandal, Hyderabad - 500032, or by sending email to [einward.ris@kfintech.com](mailto:einward.ris@kfintech.com).

Members may obtain the Notice convening the 18<sup>th</sup> AGM and Annual Report for FY 2019-20 via email, by updating their email ID by accessing the link [https://ris.kfintech.com/email\\_registration/](https://ris.kfintech.com/email_registration/). Alternatively, Notice of AGM can be downloaded from the link <https://evoting.karvy.com/public/Downloads.aspx>.

The Company will provide facility to Members to exercise their right to vote by electronic means. The instructions for joining the AGM through VC/OAVM and the process of e-voting, (including the manner in which Members holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting), will form part of the Notice of AGM.

Notice convening the AGM and Annual Report for FY 2019-20 will be available on the website of the Company at [www.htmedia.in](http://www.htmedia.in), and the stock exchanges viz. BSE and NSE at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) in due course.

For HT Media Limited  
Dinesh Mittal  
(Group General Counsel & Company Secretary)

Place: New Delhi  
Date: August 21, 2020

**RESERVE BANK OF INDIA**  
DEPARTMENT OF SUPERVISION  
[www.rbi.org.in](http://www.rbi.org.in)

**Cancellation of Certificates of Registration issued to Non-Banking Financial Companies**

The Reserve Bank of India has since cancelled certificates of registration issued to a number of non-banking financial companies under sub section of section 45-IA of the Reserve Bank of India Act, 1934 (RBI Act) and therefore these companies are not authorised to carry on the business of a non-banking financial institution as defined in clause (a) of section 45-I of the RBI Act, after cancellation of their certificate of registration.

The list containing the names of non-banking financial companies whose certificate of registration have been cancelled is published on the official website of the Reserve Bank [https://rbi.org.in/Scripts/BS\\_NBFCList.aspx](https://rbi.org.in/Scripts/BS_NBFCList.aspx), and the same is being updated regularly.

The members of the public may visit the official website of the Reserve Bank of India for information on companies whose certificate of registration have been cancelled by the Reserve Bank

(S.S.K. Pradhan)  
General Manager  
Reserve Bank of India

Place: New Delhi  
Date: August 18, 2020

**यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण**  
प्रथम तल, कॉमर्सियल कॉम्प्लेक्स, ओमगा-1, (पी-2) ग्रेटर नोएडा सिटी, जनपद गौतमबुद्ध नगर कोन नं. 0120-2395152 वेबसाइट - [www.yamunaexpresswayauthority.com](http://www.yamunaexpresswayauthority.com)

पत्रांक: YEIDA/GM(ind.)/2020-21/5502 दिनांक: 19.08.2020

**सार्वजनिक सूचना**

एतद्वारा प्राधिकरण के सैक्टर-32 से सम्बंधित औद्योगिक भूखण्डों के आवंटियों को सूचित किया जाता है कि सैक्टर-32 में आवंटित भूखण्डों के सापेक्ष 339 आवंटियों को लीजबीड कराने हेतु चेकलिस्ट जारी की जा चुकी है, जिसका विवरण प्राधिकरण की वेबसाइट [www.yamunaexpresswayauthority.com](http://www.yamunaexpresswayauthority.com) पर उपलब्ध है। इन भूखण्डों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारम्भ हो चुकी है। अतः लीजबीड की प्रक्रिया समयान्तर्गत पूर्ण कराना सुनिश्चित करें।

महाप्रबन्धक (उद्योग)

**RITES LIMITED**  
(A Govt. of India Enterprise)

**NOTICE INVITING E-TENDERS**

GGM/MSM, invites on behalf of RITES Limited online lump sum bids on two packet system for the following goods:-

1) NIT No: 2020/RITES/MSM/04/MOZ/DA, Name of Goods: Supply, Installation, Commissioning and testing of Diesel Alternator set 500 KVA (336 KW), 750V, 3 ph for Power Cars for export to Mozambique Railways, Earnest Money: INR 3, 35,000/-, Cost of Tender Document: INR 7,000/-, Period of Completion: 20 Weeks, Last Date & Time of Submission of Bids: 14.09.2020 (11:00 Hrs).

Details can be obtained from RITES website "[www.rites.com](http://www.rites.com)" or CPP portal i.e. "[www.etenders.gov.in](http://www.etenders.gov.in)". Addendum/Corrigendum, if any, shall be hosted online only.

**New Okhla Industrial Development Authority**  
Administrative Building, Sector-6, Noida - 201301 (U.P.)  
Website: [www.noidaauthorityonline.com](http://www.noidaauthorityonline.com)

**E-TENDER NOTICE**

E-Tenders are invited from eligible contractors/firms for the following jobs against which bids can be uploaded and same shall be opened/downloaded as per schedule mentioned. The details and conditions of all tenders are available on Noida Authority's official website: [www.noidaauthorityonline.com](http://www.noidaauthorityonline.com) & <https://etender.up.nic.in>. Please ensure to see these website for any changes/amendments & corrigendum etc.

S. No.	Job No.	Name of Work	Amount (Rs.)
1	13/SPE/PE (PH-I)/E-T/2020-21	Cleaning and Sweeping of all roads and drain including disposal of Solid Waste of Sec-63A, 5 Percent Abadi of Vill-Chhjarsa, FNG-I and II and Transport Nagar, Sec-69, of PH-I Area, Zone-VI, Noida	8162073.31
2	14/SPE/PE (PH-I)/E-T/2020-21	Cleaning & Sweeping of Various Complex and Roads in PH-I Area (Balance Work) Zone-V, Noida	24857901.12

The above tenders can be uploaded by date 07.09.2020 upto 5.00 PM. Pre-qualification shall be opened/downloaded on dated 08.09.2020 at 11.00 AM.

Sr. Project Engineer  
(Public Health)  
Noida

Office  
Sector-39

**CLEAN, GREEN, SAFE & SECURE NOIDA**